



## B.J. DUPLEX BOARDS LIMITED

Regd. Office : H. No. 83, 3rd Floor, Chawri Bazar, Delhi-110006

Ph. : 011-42141100, 011-30251171, [sbj@anandpulp.com](mailto:sbj@anandpulp.com)

CIN: L21090DL1995PLC066281

1<sup>st</sup> February, 2022

To,  
The Secretary  
BSE Limited  
The Stock Exchange, Mumbai  
Corporate Relationship Department  
1<sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Tower,  
Dalal Street, Mumbai- 400001

Ref: B J DUPLEX BOARDS LIMITED (Scrip Code: 531647)

Sub: Intimation under Regulation 47

*Divya Mittal*



## DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IFL Home Finance Ltd (IFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd), has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s)/Guarantor (s)	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset (immovable property)
Mr. Deepak, Mrs. Anaro Devi, Western Dance and Fitness Club (Prospect No. IL1011400)	29-Jan-2022 Rs. 28,42,166/- (Rupees Twenty Eight Lakh Forty Two Thousand One Hundred Sixty Six Only)	All that piece and parcel of the property being : UGF Front, Plot No-S-161, area measuring 100 sq. yds., Param Puri, Utam Nagar New Delhi-110059
Mr. Somdutt Choudhary, Mrs. Ritu Kumari (Prospect No. IL10112786)	28-Jan-2022 Rs. 23,90,338/- (Rupees Twenty Three Lakh Ninety Thousand Three Hundred Thirty Eight Only)	1/4th that piece and parcel of the property being : Pvt No. 4 FF Rhs. area measuring 62.5 SO. YDS., Without Roof Rights Out Of The Kharsa No. 845 Extended Lal Dora Of Village Burari, Central Delhi, Delhi, India, 110084

If the said Borrowers fail to make payment to IFL HFL as aforesaid, IFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: IFL HFL Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jagat Showroom, Moti Nagar, New Delhi/Var Corporate Office : IFL Tower, Plot No. 99, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place: Delhi Date: 01-02-2022 Sd/- Authorised Officer, For IFL Home Finance Ltd

## PUBLIC NOTICE

This is to notify all concerned that Ministry of Finance, Government of India, vide Notification No. 14/2021 Central Tax (Rate) dated 18.11.2021 has increased the GST on footwear from 5% to 12% having sale price less than Rs. 1000.00. The aforesaid increase in GST will come into effect from 01.01.2022.

Pursuant to the provision of Legal Metrology Act 2009 and Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011 (as amended up to date), We BFL Brandofolio Pvt Ltd hereby inform the public at large including our customers, dealers, distributors, that there shall be an increase in the sale price of all the footwear having sale price value less than Rs. 1000.00 to the extent of increase in GST i.e. 5% to 12% in terms of aforesaid notification. All the products, having sale price value less than Rs. 1000.00, shall be sold with revised MRP (inclusive of all taxes) along with the old MRP label w.e.f. 01.01.2022.

By this notice the public at large is notified and made aware about the increase in sale price of footwear less than Rs. 1000.00 necessitated by the Notification No. 14/2021 Central Tax (Rate) dated 18.11.2021.

BFL BRANDFOLIO PVT LTD  
Pioneer Square, Ground Floor, Unit No 23, Sector 62, Gurugram – 122102, Haryana, India.



CIRCLE SASTRIA BATHINDA  
Plot No 445, Phase -III,  
Model Town, Bathinda

## POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)

Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab National Bank, under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against the account calling upon the respective borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice, date of receipt of the said notice.

The borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property(ies) described here below in Exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of said ACT read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned against each account.

The borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property(ies) and dealing with the property(ies) will be subject to the charge of the Punjab National Bank, for the amount and interest thereon.

The borrower(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s).

Name of the Branch/Borrower(s)/Guarantor	Description of the Property/ies Mortgaged	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
B/O : KIKKAR BAZAR, BATHINDA (3468)	EM of one triple stories commercial building MC No. 4331, Kikkar Bazaar, Bathinda measuring 70sq Yards, vide RTD No. 4755 dated Punjab 151001. 2. Mr.	21.05.2021	29.01.2022	Rs. 66,28,410/-
Borrower : 1. M/S Gupta Sons, Kikkar Bazaar, Bathinda	Twenty Eight Thousand Four Hundred Ten Only) as on 31.03.2021 with future interest w.e.f. 31.03.2021 costs, charges and other expenses thereon. (Less Recovery affected thereafter, if any)			
Amrit Pal S/o Kastur Chand Gupta (Partner), M/S Gupta Sons, House No. 391, Green City Phase 2, Bathinda, Punjab 151001. 3. Mr. Gurdy Gupta S/o Amrit Pal (Partner), M/S Gupta Sons, House No. 391 Green City Phase 2, Bathinda, Punjab 151001. 4. Mr. Pawan Kumar S/o Kastur Chand (Partner & Mortgagor), M/S Gupta Sons, C/O K C Sons, #4298, Singh Sabha Gurudwara Gali, Kikkar Bazaar Bathinda Punjab. 151001. 5. Mr. Surinder Gupta S/o Pawan Kumar (Partner), M/S Gupta Sons, H. No. 20463, Street No. 11, Guru Teg Bahadur Nagar, Bibi wala Road Bathinda Punjab 151001. Guarantor : Parshotam Gupta S/o Kastur Chand, H. No. 2948, Street No. 11, Guru Teg Bahadur Nagar, Bibi Wala Road Bathinda, Punjab 151001.				

Name of the Branch/Borrower(s)/Guarantor	Description of the Property/ies Mortgaged	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
B/O : PARAS RAM NAGAR, BATHINDA (193510)	EQM of Residential Property measuring 67.50 Sq. yards i.e. 0 Bigha 1.5/17 Biswas share of Kharsa no 4900min (0-6.3/4), Khatta No 1969/110122/1, total 0 Bigha 6.3/4 Rakha Nahir Paras ram Nagar, (Hari Enclave) jamabandi 2012-13 in the name of Sangeta S/o Mukesh Kumar bearing UID No. MCB-Z-6-1144/001, Street No. 2, Baba Shri Chand Nagar, Paras Ram Nagar, Bathinda Bounded by East: 34' 6.1/2" plot of Kamni Devi, West: 34' 11" street 20' wide, North: 14' 8.1/2" Street 24' South: 20' 6" plot of Meera Devi.	15.07.2021	29.01.2022	Rs. 3,42,336.06
Borrower : 1. Mr. Mukesh Kumar S/o Ram Bilas Dumas, MCB-Z-6-1144/001, Street No. 2, Baba Shri Chand Nagar, Paras Ram Nagar, Patti Jhutti, Bathinda, 2. Smt. Sangita W/o Mukesh Kumar, MCB-Z-6-1144/001, Street No. 2, Baba Shri Chand Nagar, Paras Ram Nagar, Patti Jhutti, Bathinda.				

Name of the Branch/Borrower(s)/Guarantor	Description of the Property/ies Mortgaged	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
B/O : ZILA PARISHAD, BATHINDA (102610)	Residential House measuring 150 sq. yards Kharsa No 4281 min(0-4), 4301/17(3-1), 5725/4301/22(1-4), 5726/4301/27(1-5), 4301/30(1-12), 4363(20-4), 4364(26-15), 4365(13-14), Khawat no 2842 Khatoni no 14101 val 14105 Jambandi year 2012-2013. Total 67 Bigha 19 Biswa share of 3/1914 = 00Bigha 2.83/638 Biswa, 106 1/2 sq yards to Kharsa No. 4301/34(1-2), 4301/35(2-4), 4356/20(1-4), 4357(3-15), Khawat 0,555/638 Biswa, 43 1/2 sq yards street no 33, Payitiya Wali Gali Nanuana Road Patti Jhutti, Bathinda. In the name of Jaswinder Singh S/o Gurtej Singh, vide sale deed no 2019-20/1/9466 dated 30.01.2020. Bounded by East: 75' Anil Bharti, West: 75' S Jaswinder Singh, North: 18' Street 30' wide, South: 18' Gausalla Area.	30.06.2021	29.01.2022	Rs. 18,69,067.96
Borrower : 1. Sh. Jaswinder Singh S/o Gurtej Singh, Resident of Street no. 33, Petian Wali Gali, Lal Singh Basti (Narwana Road) Bathinda.				

no 1571 khatauni no 8257, Jambandi year 2012-13, Kite 4, Total 27 Bigha 15 Biswa share of 3/1914, Bigha 0,555/638 Biswa, 43 1/2 sq yards street no 33, Payitiya Wali Gali Nanuana Road Patti Jhutti, Bathinda. In the name of Jaswinder Singh S/o Gurtej Singh, vide sale deed no 2019-20/1/9466 dated 30.01.2020. Bounded by East: 75' Anil Bharti, West: 75' S Jaswinder Singh, North: 18' Street 30' wide, South: 18' Gausalla Area.

Date : 31.01.2022 Place : Bathinda Authorized Officer



INDIAN BANK, BRANCH OFFICE,  
HAIBOWAL LUDHIANA  
Phone No.: 0161-2311800, 7347035103

## E-AUCTION SALE NOTICE

## NOTICE OF INTENDED SALE

E Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of security Interest (Enforcement) Rules 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged / Charged to the secured creditor the constructive possession of which has been taken by authorized officer of Indian Bank, will be sold on "As is where is" "as is what is basis" & "whatever there is" on 23.02.2022 for recovery due to the Indian Bank, secured creditor from following borrower. At the reserve price and EMD amount given in respective column hereunder

Name of the Branch/Borrower/ Guarantor/Mortgagor	Mortgaged Assets/ Type of Possession	Amount Secured Debt	Reserve Price EMD Bid Increase amount	Prior Encumbrance
BRANCH: HAIBOWAL LUDHIANA	All that part and parcel of land measuring 125.46 sq yards comprised in Plot no 6, kharsa no 2216/2, 17/2, 17/4, 18/1/2, 23/21, 24/1, 24/5, 25/1as per jamabandi for the year 2011-12 situated at Maharaja Aggarasain Enclave, Village Khanpur, Headbast No. 256, Tehsil and District Ludhiana as per sale deed Wasika no 4979 dated 20.10.2014. Boundaries: East: Road 35'0", West: Road 11'0", North: Road 45'0", South: Plot No. 07'-45'-2".	Rs. 20,04,316/- as on 29.12.2021 plus interest, costs, other charges and expenses thereon.	Rs. 4,81,000/- Rs. 48,100/- Rs. 10,000/-	Nil
Mr. Chander Taneja & Mrs. Puja Taneja, B-34/6501 Street No. 1, Near Ganes Mandir, Civil City, Chander Nagar, Ludhiana (Punjab)	Type of possession :- Physical.			

Last date & time for submission of bid through e-auction mode:- 22.02.2022 up to 5:00 PM

Date, Time & Place of sale:- 23.02.2022, 11:00 AM to 3:00 PM through e auction

\*\*\*Bidders are advised to visit the website (http://www.mstcecommerce.com) of our e-auction service provider M/s IBPAI for auction bid form and detailed terms and conditions which are annexed to the bid form. The helpline No. to get assistance during the entire process is 01812275812.

Date: 31.01.2022 Place: Haibowal Authorized Officer, Indian Bank

## INDIAN OVERSEAS BANK

BINJHOL BRANCH  
VPO-Binjhool, Panipat, Haryana-132103

## POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [(Rule 8(1))]

Whereas The undersigned being the Authorised Officer of the Indian Overseas Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the borrowers / mortgagors / guarantors to repay the amount mentioned in the notice with further interest at contractual rates and rests, charges etc till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/ mortgagor/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 28th day of January of the year 2022.

The borrowers/ mortgagor/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be Subject to the charge of Indian Overseas Bank for amount mentioned below with interest thereon at contractual rates & rests as agreed, charges etc., from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of Demand notice

Note.. The dues payable as on the date of taking possession mention below + Interest payable with further interest at contractual rates & rests, charges etc., till date of payment.

The borrower/ mortgagor/guarantor attention is invited to provisions of Sub-section(8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the secured assets.

Name of Borrower/Guarantor	Description of the Immovable Property	Outstanding Amount	Date of Demand Notice
Divyam Textiles Prop: Mrs. Sunita Rani W/o Ashok Kumar Tayal VPO- Pasina Khurd Road, Vill- Sewah, Tehsil- Panipat, Dist- Panipat Haryana- 132103	Factory Land & Building 3K-12M being 72/148 share of Land measuring 7K-8M comprising Khawat No.1520 Kharsa No.126/21/3(1-4) & Khawat No.1757 Kharsa No.133/1/1 (6-4) situated at Pasina Khurd Road, Village-Sewah, Tehsil & District: Panipat-132103, Haryana. Measuring- 2169 Sq. yd. (as per Deed). The Property is in the name of Mrs. Sunita W/o Mr. Ashok Kumar Tayal Boundaries: North: M/s Banke Behari, East: Agri Land of Sumar Chand, South: Agri Land of Ved Parkash, West: Road	Rs.15,65,605.51/- as on 29.04.2021 with further interest at contractual rates and rests, charges etc	29.04.2021
Guarantors: (1) Mr. Ashok Kumar Tayal S/o Shyam Lal Tayal H No 832, Sector-12, Panipat, Haryana- 132103			
Ashoka Handloom Prop: Mrs. Sunita Rani W/o Ashok Kumar Tayal VPO- Pasina Khurd Road, Vill- Sewah, Tehsil- Panipat, Dist- Panipat Haryana- 132103	Factory Land & Building 3K-12M being 72/148 share of Land measuring 7K-8M comprising Khawat No.1520 Kharsa No.126/21/3(1-4) & Khawat No.1757 Kharsa No.133/1/1 (6-4) situated at Pasina Khurd Road, Village-Sewah, Tehsil & District: Panipat-132103, Haryana. Measuring- 2169 Sq. yd. (as per Deed). The Property is in the name of Mrs. Sunita W/o Mr. Ashok Kumar Tayal Boundaries: North: M/s Banke Behari, East: Agri Land of Sumar Chand, South: Agri Land of Ved Parkash, West: Road	Rs. 51,00,339.13/- as on 29.04.2021 with further interest at contractual rates and rests, charges etc	29.04.2021
Guarantors: (1) Mr. Ashok Kumar Tayal S/o Shyam Lal Tayal H No 832, Sector-12, Panipat, Haryana- 132103			
Date: 28.01.2022, Place: Panipat			Authorized Officer

## FINANCIAL EXPRESS

NOTICE BY WAY OF SUBSTITUTED SERVICE UNDER RULE 38 OF THE NCLT RULES, 2016 READ WITH ORDER V RULE 20 OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH

STATE BANK OF INDIA VS. SABER PAPERS LIMITED  
[A. No. 418 of 2021 in C.P. No. 395/CHD/PB/2018]

To, MANOJ KACKER .....(RESPONDENT NO.3) MIG -1276, SECTOR -32, SAMRALA ROAD, LUDHIANA -141114

ABHISHEK SOIN .....(RESPONDENT NO.4) HOUSE NO. 31, GARDEN ENCLAVE, SOUTH CITY, AYAL KHURD, LUDHIANA, PUNJAB-141001 Email: abhisoin@gmail.com

DINESH SOIN .....(RESPONDENT NO.5) HOUSE NO. 31, GARDEN ENCLAVE SOUTH CITY, AYAL KHURD, LUDHIANA, PUNJAB-141001 Email: dineshsoin@hotmail.com

EMAAR MGF CONSTRUCTION PVT. LTD. ....(RESPONDENT NO.7) ECE HOUSE, 28 KASTURBA GANDHI MARG, NEW DELHI -110001 AND

306-308, SQUARE ONE, C-2, DISTRICT CENTRE, SAKET, SOUTH DELHI, NEW DELHI-110017

WHEREAS Mr. Vikram Bajaj, Liquidator for Saber Papers Limited (in Liquidation) has filed IA. No. 418 of 2021 under Section 86 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and whereas, the Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench issued notice on all concerned parties including you the above- named, That vide order dated 24.11.2021 the Hon'ble NCLT has permitted the undersigned to serve you the Addressee through substituted service.

TAKE NOTICE that the above captioned matter will now be listed on 24.02.2022 before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench at 10:30 AM. You may either appear in person or through your Authorised Representative.

TAKE NOTICE that in default of your appearance on the aforementioned day, the Application will be heard and determined in your absence.

Date: 01.02.2022 Place: New Delhi LIQUIDATOR FOR M/S SABER PAPERS LTD. (in Liquidation) VIKRAM BAJAJ

By order of the Board For Pacific Industries Limited Sd/- (Sachin Shah) Company Secretary

MOHD. AMIR USMANI S/o Ehsanullah R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005

2. SMT. PRAVEEN AKHTAR W/o Mohd. Amir Usmani R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005
3. M/S SKG HOMES PRIVATE LIMITED, a company registered under the Indian Companies Act situated at 1007, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi-110001

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 19.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

By order of the Board For Pacific Industries Limited Sd/- (Sachin Shah) Company Secretary

MOHD. AMIR USMANI S/o Ehsanullah R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005

2. SMT. PRAVEEN AKHTAR W/o Mohd. Amir Usmani R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005
3. M/S SKG HOMES PRIVATE LIMITED, a company registered under the Indian Companies Act situated at 1007, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi-110001

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 19.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

By order of the Board For Pacific Industries Limited Sd/- (Sachin Shah) Company Secretary

MOHD. AMIR USMANI S/o Ehsanullah R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005

2. SMT. PRAVEEN AKHTAR W/o Mohd. Amir Usmani R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005
3. M/S SKG HOMES PRIVATE LIMITED, a company registered under the Indian Companies Act situated at 1007, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi-110001

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 19.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

By order of the Board For Pacific Industries Limited Sd/- (Sachin Shah) Company Secretary

MOHD. AMIR USMANI S/o Ehsanullah R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005

2. SMT. PRAVEEN AKHTAR W/o Mohd. Amir Usmani R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005
3. M/S SKG HOMES PRIVATE LIMITED, a company registered under the Indian Companies Act situated at 1007, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi-110001

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 19.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

By order of the Board For Pacific Industries Limited Sd/- (Sachin Shah) Company Secretary

MOHD. AMIR USMANI S/o Ehsanullah R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005

2. SMT. PRAVEEN AKHTAR W/o Mohd. Amir Usmani R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005
3. M/S SKG HOMES PRIVATE LIMITED, a company registered under the Indian Companies Act situated at 1007, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi-110001

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 19.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

By order of the Board For Pacific Industries Limited Sd/- (Sachin Shah) Company Secretary

MOHD. AMIR USMANI S/o Ehsanullah R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005

2. SMT. PRAVEEN AKHTAR W/o Mohd. Amir Usmani R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005
3. M/S SKG HOMES PRIVATE LIMITED, a company registered under the Indian Companies Act situated at 1007, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi-110001

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 19.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

By order of the Board For Pacific Industries Limited Sd/- (Sachin Shah) Company Secretary

MOHD. AMIR USMANI S/o Ehsanullah R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005

2. SMT. PRAVEEN AKHTAR W/o Mohd. Amir Usmani R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005
3. M/S SKG HOMES PRIVATE LIMITED, a company registered under the Indian Companies Act situated at 1007, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi-110001

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 19.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

By order of the Board For Pacific Industries Limited Sd/- (Sachin Shah) Company Secretary

MOHD. AMIR USMANI S/o Ehsanullah R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005

2. SMT. PRAVEEN AKHTAR W/o Mohd. Amir Usmani R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005
3. M/S SKG HOMES PRIVATE LIMITED, a company registered under the Indian Companies Act situated at 1007, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi-110001

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 19.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

By order of the Board For Pacific Industries Limited Sd/- (Sachin Shah) Company Secretary

MOHD. AMIR USMANI S/o Ehsanullah R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005

2. SMT. PRAVEEN AKHTAR W/o Mohd. Amir Usmani R/o Plot No. 485, Second Floor, Sector-13 Vasundhara, Ghaziabad-201005
3. M/S SKG HOMES PRIVATE LIMITED, a company registered under the Indian Companies Act situated at 1007, Arunachal Building, 19 Barakhambha Road, New Delhi-110001

In the above noted



# हथियार सप्लायर से 10 पिस्टल और 20 कारतूस बरामद

हरिभूमि न्यूज ॥ नई दिल्ली

स्पेशल सेल ने कुख्यात हथियार सप्लायर कासिम को अरेस्ट किया है। इसके पास से 10 पिस्टल और 20 कारतूस बरामद हुये हैं। एमपी से हथियार लाकर यह शख्स दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और वेस्ट यूपी में सप्लाई करता था। पुलिस ने इसके खिलाफ संशोधित आम्स एक्ट 2019 के तहत केस दर्ज किया है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है।  
डीसीपी जसमीत सिंह के अनुसार कासिम की उम्र 60 साल है। वह हमीरपुर

## खबर संक्षेप

### घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से लूटपाट

नई दिल्ली। मॉडल टाउन थाना इलाके में घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट की गुथी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी का नाम देवेंद्र सऊद (35) है। वह मूलरूप से नेपाल का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह उसने अपने दोस्त (घर का नौकर) व अन्य दो लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, रात 29 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे एक बुजुर्ग महिला से लूटपाट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पुलिस को 62 साल की पीड़िता मिली, जोकि डी-ब्लॉक, मॉडल टाउन पार्ट तीन में रहती है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा परिवार के साथ घूमने गोवा गया था। इस दौरान वह घर में अकेली थी। इस दौरान उनके घर में काम करने वाला नौकर लोकेश अपने दो तीन साथियों को घर लेकर आया। शराब पीने के बाद उसने पीड़िता को एक कमरे में बंद कर दिया।

### नरेला में युवक को मारी गोली, घायल


नई दिल्ली। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना इलाके में एक युवक को गोली लगी है। घायल युवक का नाम श्याम है। उसे घायल अवस्था में राजा हरीश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चला है। पुलिस को शाम करीब 5:30 बजे एक युवक को गोली लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक श्याम नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में रहता था। बताया जा रहा है कि शाम को श्याम इलाके में घूम रहा था इसी दौरान उसकी बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उसके हाथ में लगी।

## राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप सरकार को वादा याद दिलाने की अपील

# सरकार की वादाखिलाफी को लेकर किसानों ने मनाया देशव्यापी विश्वासघात दिवस

हरिभूमि न्यूज ॥ नई दिल्ली

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशभर में किसानों ने सोमवार 31 जनवरी 2022 को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाकर अपना रोष जाहिर किया। एसकेएम के अनुसार केन्द्र सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। जिस सरकारी [1]चिट्ठी के बाद आंदोलन स्थगित किया गया था उसमें सरकार ने वादा किया था कि किसान आन्दोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमें तत्काल प्रभाव से वापिस लिये जायेंगे। केस वापिस लेने की सहमति उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान कर दी गयी थी। भारत सरकार से सम्बन्धित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघशासित क्षेत्रों में आन्दोलनकारियों एवं समर्थकों पर दर्ज किये गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापिस लेने पर सहमति बनी थी।



लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल सरकार की तरफ से आंदोलन के दौरान बनाए गए केस वापिस लेने के आश्वासन पर नाममात्र की भी कोई कार्यवाई नहीं हुई है। किसानों को लगातार इन केसों में समन आ रहे हैं। सिर्फ हरियाणा सरकार ने कुछ कागजी कार्यवाई की है और केस वापिस लेने के कुछ आदेश जारी किए हैं। लेकिन अब भी यह काम अधूरा है, किसानों को समन आ रहे हैं। वादा था कि भारत सरकार अन्य राज्यों से भी अपील करेगी कि इस किसान आन्दोलन से सम्बन्धित दर्ज मुकदमों को वापिस लेने की

कार्यवाही करें। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी भी नहीं भेजी गई है। एक वादा आन्दोलन के दौरान शहीद परिवारों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुआवजे का भी था जिस पर सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। लेकिन हकीकत है कि शहीद किसान परिवारों को मुआवजा देने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। हरियाणा सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि और स्वरूप के बारे में भी कोई निर्णय घोषित नहीं हुआ है। [1]सरकार का वादा था कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी

- सरकार अपने लिखित आश्वासन से मुकरेगी तो दोबारा शुरू होगा आंदोलन

ने एक कमिटी बनाने की घोषणा की है। कमिटी का एक मੈडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाय। हकीकत यह है कि इस मुद्दे पर सरकार ने न तो कमटी के गठन की घोषणा की है, और न ही कमटी के स्वरूप और उसकी मੈडेट के बारे में कोई जानकारी दी है। सोमवार को कई जगह राष्ट्रपति के नाम जिला डीसी और तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। जिसमें राष्ट्रपति से किसान नेताओं ने अपील करते हुये लिखा कि आप इस देश के मुखिया हैं। आपका सैवधानिक दायित्व है कि आप देश के सबसे बड़े वर्ग अन्नदाता के हितों की रक्षा करें और सरकार को इस छोखाधड़ी के विरुद्ध आगाह करें। आप जानते हैं कि किसानों के खून पसीने की वजह से आज देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ है।

## एमपी से हथियार लाकर दिल्ली-एनसीआर में करता था सप्लाई

जिले के बकराई गांव का रहने वाला है। 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात इसे एमबी रोड, पुल प्रहलादपुर, दिल्ली से अरेस्ट किया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी करीब 15 सालों से अवैध हथियार सप्लाई के धंधे में शामिल है। वह एमपी के बड़वानी जिला स्थित सेंधवा से हथियार लाता था। इसके पास से बरामद हुये हथियारों में सात सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल .32 बोर और तीन देशी कट्टे .315 बोर के शामिल है। वहीं 14 कारतूस .32 बोर और छह कारतूस .315 बोर में हैं।

## ग्रेटर कैलाश की घटना : लंदन से आई थी इलाज कराने

# मां की मौत के सदमे में डॉक्टर बेटी ने नस काटकर दी जान

हरिभूमि न्यूज ॥ नई दिल्ली

लंदन से दिल्ली मां का इलाज कराने आई एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। दरअसल, मृतका अपने मां इलाज करने आई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मां की मौत के बाद उनकी बेटी सदमे में चली गई और उसने तीन दिन बाद खुद पर सजिकल ब्लेड से हमला कर अपनी जान दे दी। मृतका का नाम डॉ. मेधा कायल (40) है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में




- पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट
- नोट में लिखा मां के पास जा रही हूं, मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं

### अधिक खून बहने की वजह से गई जान

## सोनिया विहार में पेट में चोट लगने से महिला की मौत

नई दिल्ली।



## विवेक विहार महिला से दरिदगी का मामला

# फर्जी अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज ॥ नई दिल्ली

- पुलिस ने लोगों से की पीड़िता की पहचान न बताने की अपील

विवेक विहार थाना इलाके में स्थित कस्तूरबा नगर में महिला के साथ हुई दरिदगी मामले में अब सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा है। व्हाट्सएप समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीड़िता की आत्महत्या करने की अफवाहें फैलाई जा रही थी। वहीं, पीड़िता को एक खास समुदाय से जोड़कर प्रस्तुत कर झूठी बातें फैलाई गईं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान भी उजागर की गई। इसी को देखते हुए डीसीपी (शाहदरा) आर. सत्यसुंदरम ने कहा कि सोशल मीडिया झूठ को न फैलाएं, इसके अलावा पीड़िता की पहचान को भी उजागर न किया जाए। ऐसा करने वालों की पहचान की जा रही है।

## दो बहनों को सरेराह पीटा, नाबालिग भाई को नशा न बेचने की लगाने गई थी गुहार

नई दिल्ली।

## घर खरीदारों को करोड़ों का चूना लगाने वाला अरेस्ट

नई दिल्ली।

21	21	2018	8.28
21	30	2015	

**आईबीसी, 20 16 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना**  
**मै. जे टी रेस्टोरेण्ट प्राइवेट लिमिटेड (ऋणशोधन मै)**  
की आईबीसी, 2016 के तहत बिक्री सूचना  
**CIN : U55101DL2013PTC252017**  
पंजी. कार्या. : बी-6/22, प्रथम तल, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली-110029 आईएन ऋणशोधक का कार्यालय : 1005, भू-तल, सेक्टर-31-32ए, गड्ढागंज-122001

मै. जे टी रेस्टोरेण्ट प्राइवेट लिमिटेड (ऋणशोधन मै) के नाम 11/बी, पूरा रोड, वोलसरीसी रो के पीछे, नई दिल्ली-110060 में रखे रेस्टोरेण्ट उपकरणों की बिक्री माननीय राष्ट्रीय कमनीय विधि ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली पीठ-VI द्वारा नियुक्त ऋणशोधक द्वारा की जाएगी। बिक्री अधोहरताहरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <https://ncltauction.auctiontiger.net> के माध्यम से की जाएगी।

वर्णन	ई-नीलामी की तिथि व समय	आरंभित मूल्य (आईएनआर)	ईएचडी राशि	बोली बढ़ीतरी मूल्य
बैच : I	05.02.2022 समय : अर. 2 से 5 बजे	2,23,023.00*	50,000.00	10,000.00

\* जीएसटी तथा अन्य लागू कर अतिरिक्त  
**विरीक्षण की अनिवार्य तिथि** : केवाईसी दर्तावेज और ऋणशोधक की पूर्व सूचना सहित 02.02.2022 अप. 5.00 बजे तक।  
**ईओआई जमा की अनिवार्य तिथि** : 04.02.2022 अप. 5.00 बजे तक  
**प्रस्तावित नीलामी के नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं :-**

- ई-नीलामी "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", "जो कुछ है आधार" और "बिना किसी अवलम्ब आधार पर" की जाएगी। ऐसी बिक्री अनुमोदित सेवाप्रदाता के माध्यम से बिना किसी वारंटी और खतिमूर्ति के है।
- मै. जे.टी.रेस्टोरेण्ट रेस्त्रोलीव लिमिटेड-ऋस्त्रन दस्त्रर (<https://ncltauction.auctiontiger.net>)
- बोलियां निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य ऋणशोधक को जमा की जाएगी। पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम व शर्तों सहित बोली प्रपत्र वेबसाइट <https://ncltauction.auctiontiger.net> से डाउनलोड किने जा सकते हैं।
- निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों का विवरण जोकि कम्पनी को स्थानांतरित की जानी है उपरोक्त ई-नीलामी प्रक्रिया दर्तावेज में भी उपलब्ध करवाया गया है।
- ऋणशोधक के पास किसी अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित करने/आगे बढ़ाने/रद्द करने अथवा किसी सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग को ई-नीलामी से किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।
- बिक्री विधिवानुसार एवं बैचक्रॉपी को 2016 और उसके तहत बनाये गये नियमनों के प्रावधानों के अधीन होगा।

हस्ता/-  
पुनित हांडा, ऋणशोधक  
दिनांक : 31.01.2022  
एकपक्षी-1 नई, दिल्ली-110029

**IBBI Reg. No:** IBBI/MPA-002/IP-NO0298/2017-18/10857  
**Email:** [info@ncltauction.auctiontiger.net](mailto:info@ncltauction.auctiontiger.net) **Mob:** 9898191980/980

B J DUPLEX BOARDS LIMITED				
CIN: L21090DL1995PLC066281				
Regd. Office: H. NO. 83, TIF CHAWRI BAZAR, DELHI-110006				
Tel.: (91)-11-41410139				
Email id: <a href="mailto:sbj@anandpulp.com">sbj@anandpulp.com</a> ; Website: <a href="https://www.bjduplexboard.com">https://www.bjduplexboard.com</a>				
Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Third Quarter & Nine Months Ended 31 <sup>st</sup> December, 2021 (In lakhs)				
Particulars	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2020 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)
Total Income from Operations	0.00	0.00	0.00	0.05
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.14)	(1.44)	(0.55)	(2.87)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.14)	(1.44)	(0.55)	(2.87)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.14)	(1.44)	(0.55)	(2.87)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.00	0.00	0.00	0.00
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	37.66	37.66	37.66	37.66
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
1. Basic :	(0.003)	(0.027)	(0.01)	(0.056)
2. Diluted:	(0.003)	(0.027)	(0.01)	(0.056)
<b>Notes:</b>				
1. The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial Results for the third quarter and nine months ended 31 <sup>st</sup> December, 2021 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results ended 31 <sup>st</sup> December, 2021 is available on the BSE website ( <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> ) and Company's website ( <a href="https://www.bjduplexboard.com">https://www.bjduplexboard.com</a> ).				
2. The above un-audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 31 <sup>st</sup> January, 2022.				
For B J DUPLEX BOARDS LIMITED				
			Sd/-	
			Satya Bhushan Jain	
			Whole Time Director	
			DIN: 00106272	
Place : Delhi				
Date : 31 <sup>st</sup> January, 2022				

## हरियाणा लोक सेवा आयोग घोषणा

एतद् द्वारा उन उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी हेतु, जिन्होंने 14.08.2018 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन सं. 4/2018 और शुद्ध दिनांक 15.08.2018 के प्रांत उन्ने से पत्नी लक्ष्मी हाथवाणी नि. डाक्टरी प्रमाणपत्र (श्रेणी-I) के 02 पदों हेतु आवेदन किया था, को ज्ञात है कि इस घोषणा के साथ संलग्न सूचना में उन उम्मीदवारों जिनके / पिता का नाम / पञ्जीकरण संख्या / अनुक्रमांक में वर्णित है, को उम्मीदवारों निरस्त किए जाने योग्य है।  
सूची-I में आयोजी की वेबसाइट पर प्रदर्शित उम्मीदवारों की उम्मीद आनिताइन आवेदन प्रपत्र की मुद्रित / हाइ कॉपी के साथ-साथ आ दर्तावेज की प्रति अंतिम तिथि अर्थात 10.11.2021 तक जमा न करने कारण निरस्त किए जाने योग्य है। सूची-II में वर्णित उम्मीदवार उम्मीदवारों विभिन्न अन्य कारणों से निरस्त किए जाने योग्य है, जिन्हें आ 07-ई-नेल के माध्यम से संचारित किया जाएगा।  
सूची-I में उम्मीदवार अपने प्रति आवेदन, यदि कोई है, प्रर निरस्तकरण के विरुद्ध दर्तावेजी पूर / राक्ष्य के साथ को उन्होंने सं दर्तावेज और हाई प्रति अंतिम तिथि अर्थात 10.11.2021 से बहुत पहले करवा दो है और सूची-II में वर्णित उम्मीदवार प्रतर्नित निरस्तकरण विरुद्ध समर्थित दर्तावेजी के साथ अपना प्रतिवेदन इस घोषणा के प्रकाश तिथि से 10 दिन की अवधि के भीतर अर्थात दिनांक 07.02.2022 को 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं जिसमें विफल रहने पर किसी प्रातिवे विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में निर्णय उपलब्ध निकाई के 3 मॉरिट पर लिया जाएगा।  
वह सूचना आयोजी को वेबसाइट <http://haryanaeprocure.gov.in> पर भी उपलब्ध दिनांक : 27.01.2022 हस्ता/- स हरियाणा लोक सेवा आ पंचर संवद बिहा सं. 1158/12-अप/2022/7217-88/7 दि. 31.01.2

हरियाणा सरकार शुद्धिपत्र				
क्र. सं.	बोर्ड/विभाग/ प्राधिकार का नाम	पुनरा संदर्भ / प्रशासकीय सं.	शुद्धिपत्र की प्रकृति	बोर्ड/विभाग/ प्राधिकार का वेबसाइट
1	टीएचसीबीएम	NIT NO. 56/ESTATE OFF/CE/HISAR/2021-22 (TENDER ID NO. 2021 HBC 200187 1)	विद्युत नगर बालीनी डीपेक्सीबोलेल विस्तर के अंतिमस् करण सेंट्र गैरस् हाइड्र 2 VIII के नुनोदतर हेतु तिथि 14.02.2022 तक बड़ा दी गई है	<a href="http://www.dhcnv.org.in">www.dhcnv.org.in</a>
2	टीएचसीबीएम	NIT NO. TER 48/NSP/R-APDR/2021 DATED 08.12.2021 & E-TENDER NO.2021 HBC 196911 FOR ENGAGEMENT OF NETWORK SERVICE PROVIDER NSP FOR PROVIDING INTERNET BASED LINE AT DATA CENTER HISAR AND POINT TO POINT MPLS LINKS BETWEEN DC HISAR & DC PANCHKULA	विद्युत नगर बालीनी डीपेक्सीबोलेल विस्तर के अंतिमस् करण सेंट्र गैरस् हाइड्र 2 VIII के नुनोदतर हेतु तिथि 14.02.2022 तक बड़ा दी गई है	<a href="http://www.dhcnv.org.in">www.dhcnv.org.in</a>
3	टीएचसीबीएम	NIT NO. 56/ESTATE OFF/CE/HISAR/2021-22 (TENDER ID NO. 2021 HBC 197327 1)	विद्युत नगर बालीनी डीपेक्सीबोलेल विस्तर के अंतिमस् करण सेंट्र गैरस् हाइड्र 2 VIII के नुनोदतर हेतु तिथि 14.02.2022 तक बड़ा दी गई है	<a href="http://www.dhcnv.org.in">www.dhcnv.org.in</a>
4	टीएचसीबीएम	NIT NO. 56/ESTATE OFF/CE/HISAR/2021-22 (TENDER ID NO. 2021 HBC 195039 1)	विद्युत नगर बालीनी डीपेक्सीबोलेल विस्तर के अंतिमस् करण सेंट्र गैरस् हाइड्र 2 VIII के नुनोदतर हेतु तिथि 14.02.2022 तक बड़ा दी गई है	<a href="http://www.dhcnv.org.in">www.dhcnv.org.in</a>
5	टीएचसीबीएम	NIT NO. RFP-19/PD&C/ 2021-22	पत्रा 5.1.1 के तहत तकनीकी गपदेव नियामकुर संवेक्षित किए गए हैं :- इतैबिक्र पत्रा विस्तर/टर्मिनेशन प्रोवेकर हेतु टर्मिने प्रोवेकर को गुणवत्ता सुनिश्चित करन, बीच और निर्निर्दिष्ट में बोलोवता को न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए	<a href="http://www.dhcnv.org.in">www.dhcnv.org.in</a>
अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें: <a href="http://www.haryanaeprocurement.gov.in">www.haryanaeprocurement.gov.in</a> or <a href="http://www.etenders.hry.nic.in">www.etenders.hry.nic.in</a>				
संवद विज्ञा. सं.-13/2022/100/72131/88/7 दि. 31.01.2				